



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 25, सोमवार, शके 1941-सितम्बर 16, 2019  
Bhadra 25, Monday, Saka 1941-September 16, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER**

**Jaipur, September 11, 2019**

**F.10 (Elec) LSG/19/9756** .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Parbatsar has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Parbatsar. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer.

**By Order,**  
Ujjwal Rathore,  
**Joint Secretary to Government.**

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, परबतसर जिला नागौर राज.

प्रपत्र क

क्र.स.	वार्ड संख्या	वार्डों के सीमांकन का विवरण
1	1	बिहारीलाल हरिजन के मकान से रेलवे पुलिया नदी के रास्ते से होते हुए विधालय नं. 6 बेबू सिन्धी, भवंर खां माली बस्ती गणपत बावरी, मुन्शीफ कोर्ट, पाण्डुरंग धर्मशाला, बस स्टेशन, निजामुदीन जी, सी.सै. स्कूल, ओम जी वैद्य किशनगोपाल जोशी, नं. 2 स्कूल, सैन भवन, रेलवे क्वाटर, रामचन्द्र चौधरी, सुशीला हरीजन, बगीची सेण्ट पॉल स्कूल के पास की आबादी को लेते हुये बिहारी लाल हरीजन के मकान तक।
2	2	जयमल पार्क के पास चौराहे से समस्त हनुमान कॉलोनी होते हुए किले वाले बालाजी, पारीक भवन, पीर जी के नाका व उसके पास बजरंग माली व समस्त बस्ती को लेते हुए जयमल पार्क के पास चौराह तक।
3	3	पशु चिकित्सालय, चेतन कुम्हार गूलर वाली जमीन, जगदीश कुम्हार, तेजाजी मन्दिर चादर के पास के आबादी को लेते हुए, रेगर मुक्ति धाम के पास सरीफ मोहम्मद, रफीक मोहम्मद, 06 नं. स्कूल, नाथो का मकान होते हुए रामेश्वर रेगर भंवर जी तेली, पुलिस चौकी मजीत जी, याकुब शेख, गोपाल गिवारिया, सरीफ मोहम्मद की दुकान, मदन जी कुम्हार, होते हुए पशु

		चिकित्सालय।
4	4	छिगन जी गिवारीया, रामदेव माली, गणपत गिवारीया, सादिक हुसैन, सुबराती, हुक्माराम प्रजापत, कुम्हार भवन, होते हुए मोदी जी की दुकान, मस्जिद, तुलसीराम जी झंवर, सीताराम मन्दिर, बाबु साई, इन्दु खां, बाबु कुरैशी, पानी की टंकी होते हुए छिगन गिवारीया
5	5	बाबु छिपा, बृजमोहन दवे, आर्युवेदिक ओषधालय, इकबाल जी छीपा, अमृत लाल दर्जी, रमेश खण्डेलवाल, सत्यनारायण भागडा, इन्द्रेश पुजारी, शारदा पब्लिक स्कूल, तेजू हलवाई, किशोर नाई, के मकान से होते हुए गणपती लाईट डेकोरेशन, लाल जी नाई की दुकान, मांगी लाल जी वैध नं. 01 स्कूल, झंवरो की गली, सत्यनारायण पारीक, डोडिया की दुकान, रमेश अग्रवाल का मकान, रामकरण प्रजापत मकान, होते हुए प्रदीप गट्टाणी, बाबु छीपा तक।
6	6	थार ग्रामीण बैंक से आनन्द जी, जगदीश सिंह वकिल, सिंघवी भवन, मुल जी प्रजापत, रामस्वरूप कुम्हार, डुंगाराम का मकान, तारा कंपनी, परदेशियों का मोहल्ला निजाम जी काजी, रइसुदीन काजी, पुखराज दर्जी, मंत्री जी की दुकान, बिडला जी का मकान, अमरचन्द सोनी, नृसिंह बंग, रामा जी की दुकान, गोपाल जी का मन्दिर, चारभुजा मन्दिर, मुकेश जी पंडित बुधराज तिवाडी होते हुए थार ग्रामीण बैंक तक।
7	7	नगरपालिका कार्यालय से शर्मा जी दुकान, रामाकिशन बावरी, बावरी मौहल्ला, कडवों का मकान, ओमजी सोलंकी, मजीद जी की चक्की, हंसराज गिवारीया, माधु गिवारीया, इस्लामुदीन जी बबलू की दुकान, अयुब जी पठान, रसीद पठान, रामदेव जी, नोरत जी, पारीक मोहल्ला, उम्मेद मल सिंघवी, माहेश्वरी भवन, धर्मराम चौधरी की गली, रामेश्वर जी कंपाउंडर, ईसर जी मुंशी, कमल वैष्णव के मकान होते हुए राजेश जी गर्ग सोनी कॉम्प्लेक्स नगरपालिका कार्यालय तक
8	8	बेबू सिन्धी की दुकान से अरुण जी माथुर के चेम्बर होते हुए इकबाल जनरल स्टोर से माधुप्रसाद जी व्यास का मकान सुरेश जनरल स्टोर, सुरज जी माली मांगीलाल जी मोहन बागड़ी, भागचन्द काबरा, सरोज कंवर, दिल्ली दरवाजा होते हुए मोहन ठेकेदार से राणी बाजार की दोनो साईड लेते हुए राज रेडीमेड, ओमजी भागड़ीया पोस्ट ऑफिस, छितर महाराज, सावर्जनिक निर्माण विभाग कार्यालय होते हुये बेबू सिन्धी की दुकान तक
9	9	सुरजकरण जी व्यास, श्याम जी एडवोकेट, अजन्ता फोटो स्टेट सरगरो का मौहल्ला, बाबूलाल जी व्यास, राठी जी की दुकान, सुनारो का मौहल्ला, जगदीश जी काबरा, सरवर खां, रामा पुत्र प्रभु धोबी से गणपत धोबी के बीच के मकानो को लेते हुये शिवराज लखारा, अब्बास तेली लक्ष्मीनारायण लखारा,

		बड़ हाऊस तकिया मोती जी लुहार बक्साराम भाम्भी, दुलाराम मेघवाल, रामबल्लभ सोनी, मालियों की पोल, तुलसीराम दर्जी, विश्वकर्मा मन्दिर अर्जुन माली के मकान होते हुये सुरजकरण जी व्यास तक।
10	10	मोती जी व्यास भगवत जोशी राठी जी का कारखाना नरेन्द्र राठी, रसीद दरेश, यासीन टेलर दीन मोहम्मद, वहीद जी टेलर, अब्दुल रहमान, रामेश्वर जोशी, भेरूजी का चबुतरा, जगदीश राठी, भवंर व्यास, हरीशंकर व्यास के मकान होते हुये, मोती जी व्यास के मकान तक
11	11	रंगमंच से किस्तुरचन्द, नन्दू दर्जी रतनलाल पलोड़, प्रकाश पुजारी रघुनाथ जी मन्दिर गोपाल जी गौड़, छोटू जी गौड़, लालाराम गुर्जर, रफीक जी मास्टर, अनवर बेग, मुनीर खां, हमीद खां, मस्जीद, मुराद खां रातड़ा के मकान से होते हुये हमीद खा भाटी गणपत बंग, बंग मौहल्ला जीतमल सोनी, सुभाष भटनागर मोहन छीपा की दुकान ओम जी पान की दुकान जोशी गली होते हुये रंगमंच तक
12	12	सत्यनारायण रेगर , मोहन रेगर, गंगामाई मन्दिर, पुनाराम रेगर देवाजी गुर्जर, मदननाथ, ओमनाथ, घनश्याम गौड़ रामस्वरूप मंत्री कचरू जी भागड़ीया, कन्हैयालाल नाई रामस्वरूप गौड़, दीपाराम भार्गव शनी मन्दिर, रामलाल भार्गव, कानाराम भार्गव के मकान को लेते हुये सम्पूर्ण रेगर बस्ती सत्यनारायण रेगर तक
13	13	देवनारायण जी मन्दिर से लिखमाराम गुर्जर, भोलूराम गुर्जर, नारायण गुर्जर, शहबाज खां फरीद खां रातड़ा, मदरसा, सरदार खां, हकीम खां मास्टर, हकीम टेलर, शब्बीर मोहम्मद, बशीर खां मौलाना, हकीम खा मौलाना, जहुर मोहम्मद, बरकत, हाजरा जनरल स्टोर, रफीक मोहम्मद, उम्मेद खा के मकान होते हुये देवनारायण जी मन्दिर तक
14	14	भवंरू खां सफी खां देशवाली के मकान से जफरू खा, हमीद खां के मकान, अयुब खां का मकान फेजमौहम्मद का मकान अजीज खांजी की चक्की हकीम खां मास्टर का मकान रफीक का मकान हमीद खां मोईल का मकान बशीर खां, असफाक भाटी का मकान सलीम खां, लाल खां, रसीद खां का मकान मच्छु खां रातड़ा, सबीर की दुकान हसन खां मुन्शी का मकान अली मोहम्मद का मकान, उम्मेद खां खिंची, नवाब अली का मकान मुराद का मकान उम्मेद खां, चान्द मोहम्मद का मकान रसीद जी मुन्शी का बाड़ा भवंरू खां तक
15	15	जलाल खां के मकान से नजीर खा के मकान, चौथमल सोनी का मकान, अम्बेडकर भवन लखारा का मकान, महावीर लखारा, छितर मेघवाल, रामू जी की आखली, पिन्टू बन्ना का मकान, गोरधन जी का मकान, दाता की गली, मुकेश जी सोनी, अर्जुन कुमार के मकान से गोविन्द आखली, एसबीबीजे बैंक,

		भवानी ड्राइक्लिन, गफूर आखली, तकिया का जाव, जुम्मन तेली, मदरसा लुहारो का, गफार, मोती लुहार, रामदेव जी मन्दिर, अणदाराम का मकान, रामस्वरूप हरिजन, गुलजार जी, रमजान, रफीक भाटी का मकान, सुनारों की बगीची, बसीर खां जी का मकान, शरीफ जी का मकान से जलाल खां के मकान तक ।
16	16	योगेश जी बोहरा की दुकान, पांचूराम माली, मिश्रीलाल माली की दुकान, अमृत बंग का मकान, मोदी जी की दुकान व मकान, शिवजी सुनार की दुकान, बाबा रामदेव मार्केट, रामा जी माली का मकान, भंवर जी की चक्की, डॉ. सारण का मकान, ललाणा हाउस, गिंगोली हाउस, बर्फ फेक्ट्री, राजेन्द्र सिंह का मकान, भींवारा बंजारा का मकान, घीसू जी लुहार, वसुन्धरा गेट, बस्तीराम जी का मकान, नथमल व्यास की दुकान, अर्जुन जी माली, गोरधन माली की दुकान, योगेश जी बोहरा तक
17	17	शिवराज लखारा का बाडा, डीपी के पास, सरदार जी के मकान, राकेश जी बंजारा का मकान, पवन जी की दुकान, नूर खां, समदर खां के मकान, महेश दवे का जाव, धोबियों की बेरी के पास इस्माईल का मकान, फरीद खां का मकान , कब्रिस्तान, हरिजनो का मुक्तिधाम, मुक्तिधाम, स्टेडियम, कस्तुरबा, मूलसिंह का मकान , वीर तेजा, राज बजाज, सम्पत जी का मकान, आसूसिंह का मकान से इनाणियां ट्रेक्टर पार्ट्स, दीदाराम का मकान, पीडब्ल्यूडी क्वार्टर, वन विभाग, जलदाय विभाग, गणेश द्वार से सीधे पंचायत समिति से वसुन्धरा दरवाजा, पलक ब्यूटी पार्लर, रोशन तेली का मकान, गोपाल भार्गव का मकान, जगदीश कुम्हार का मकान, द्वारका प्रसाद त्रिपाठी का मकान, ओम जी मुन्दडा से शिवराज लखारा तक ।
18	18	मदन जी बेन्दा से किशनगढ रोड पूर्वी दिशा रमाकान्त पारीक से वापस होते हुए भेरू जी मन्दिर के पास श्याम कॉलोनी रोड चतुर्भुज राजपुरोहित से शंकर माली से पुनः मदन जी बेन्दा तक
19	19	रामनिवास वैष्णव के मकान से दक्षिण साईड कॉम्प्लेक्स, प्रेमप्रकाश मालाकार, कालूराम के मकान के पास से गली होते हुए ऊपर मीरा गार्डन जयमल, गिंगोली रोड होते हुए वापस रामनिवास वैष्णव तक।
20	20	गिंगोली रोड मीरा गार्डन के पीछे की गली के मकान होते हुये नीचे नोरत माली, आशीष सिंह के मकान से नायक बस्ती के आस-पास, श्रवण नायक तक लेते हुये वापस सन्त रविदास महादेव व राव जयमल कॉलोनी होते हुये गिंगोली रोड पर मीरा गार्डन के पीछे की गली तक ।
21	21	राजकीय चिकित्सालय से गिंगोली रास्ता की उत्तरी तरफ समस्त आबादी को लेते हुये डॉ.सोलंकी, बालाजी रोड के पास, समस्त आबादी, कुम्हारो का

		मोहल्ला, राधेश्याम माली पार्श्व, राधाकिशन जी बागडा मेघवाल बस्ती से होकर राजकीय चिकित्सालय तक ।
22	22	मारवाड़ चिकित्सालय से शंकर भगवान मन्दिर होकर मोहन मेघवाल, परसाराम राव, बालाजी रोड के दक्षिण साईड की सम्पूर्ण आबादी को लेते हुये केशवनगर से जगदीश चौधरी मास्टर के मकान से भैरू जी गोदारा, कालू जी जाट के मकान से बाबुलाल खाती से मारवाड़ चिकित्सालय तक।
23	23	रूपाराम बागडा से बडले वाले बालाजी के उत्तरी रोड के समस्त बस्ती को लेते हुये चुंगी नाका नम्बर दो के पूर्व साईड तहसील की आबादी, सोहन भारती तक का भाग, से पुनः रूपाराम बागडा तक।
24	24	बागड़ा निडम, गुसाईयों का मौहल्ला, कुचामन रोड, मंत्री का मकान, सांकेत धाम, घुड़ दौड़ के रास्ते से ज्ञानेन्द्र जी मास्टर से सुभाष जी मास्टर होते हुये बागड़ा निडम तक
25	25	वैष्णव भवन से पूरणमल हरिजन के मकान होते हुये बीच के सम्पूर्ण बोहरा का बास को लेते हुये ओम जी सैन, सत्यनारायण बागड़ की चक्की होते हुये सांड शाला बालाजी मन्दिर से वापस वैष्णव भवन तक

अधिशायी अधिकारी  
नगरपालिका परबतसर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।